

## नवीन सत्र 2022 - 23 विद्यार्थियों का स्वागत (प्रवेशोत्सव)

लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत फूलों द्वारा किया गया । प्राचार्य डॉ. गोविन्द गंधे द्वारा विद्यार्थियों को आशीर्वचन के साथ-साथ मार्गदर्शन किया गया । विद्यार्थियों को NEP, स्कॉलरशिप, अनुशासन एवं भविष्य में सफलता के सोपान पर चढ़ने की सीढ़ी से अवगत कराया गया ।

दिनांक 11 जुलाई 2022 को विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंधन के छात्रों की प्रथम कक्षा में विद्यार्थियों के स्वागत, मार्गदर्शन एवं शिक्षकों के परिचय द्वारा छात्रों को महाविद्यालय के शिक्षक, अनुशासन एवं कार्यपद्धती से अवगत कराया गया । छात्रों को हंसते हुए महाविद्यालय में प्रवेश करना चाहिए अच्छे से पढ़ाई करके हंसते हुए ही घर वापस जाना चाहिए महाविद्यालय के शिक्षक 24 \* 7 समय छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं । किसी भी समस्या का समाधान तुरंत हो सकता है विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्राचार्य कक्ष के द्वार भी छात्रों के लिए हमेशा खुले रहते हैं ।

अंत में विद्यार्थियों को New journey की शुभकामनाओं के साथ शिक्षा का सिंबल"कलम" वितरित किए गए।



## दस दिवसीय गणेश उत्सव संपन्न

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी लोकमान्य टिळक सांस्कृतिक न्यास एवं शिक्षण समिति द्वारा आयोजित गणेश उत्सव महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ।

दिनांक 31/8/2022 से 9/9/2022 तक दस दिवसीय गणेश उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ । न्यास के अध्यक्ष श्री किशोर जी खंडेलवाल द्वारा गणेश स्थापना की पूजा की गई इस अवसर पर कार्यपालन अधिकारी श्री गिरीश जी भालेराव एवं संस्था प्रमुख डॉ. संगीता पातकर, श्री ज्ञानेंद्र शर्मा, श्रीमती शुभा मराठे, डॉ. गोविंद गन्धे एवं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, विद्यालयों के शिक्षक, महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे। इन दस दिनों में महाविद्यालय में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जैसे 108 दीप प्रज्वलित किये गए, 56 भोग( मिठाई , नमकीन, फल) का भोग लगाया गया ।विसर्जन के दिन सभी प्राध्यापक, विद्यार्थी पारम्परिक वेशभूषाओं को पहन, ढोल नगाडों के साथ गणेश विसर्जन के लिए महाविद्यालय में उपस्थित हुए।

महाविद्यालय परिसर में गणेश उत्सव प्रथम बार आयोजित होने के कारण छात्रों में विशेष उत्साह दिखाई दिया तथा छात्रों ने डॉ. अनीता अग्रवाल, डॉ. ममता पंड्या, डॉ. मीनल वनवट, श्रीमती सोनल गोधा, डॉ. जया परिहार और श्रीमती अनुराधा परमार के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों रश्मित मोदी, निखिल पंवार, तुषार ठाकुर, नमन नामदेव, अंकित यादव, यश चक्रवर्ती, रोहित डाबी, कुणाल शुक्ला, चंद्र शेखर, खुशी वानखेड़े, दिव्या तंवर, अवनी शर्मा, अंजलि वाडकर, कनक, दिशा, रिद्धि काकानी, रुचिका पचलनिया, पूजा अंजना , साक्षी तिवारी प्रियांशी ,शुभम सांखला, किरण सोलंकी आदि छात्रों ने सहभागिता की।



## अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन

लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में दिनांक 24/09/2022 को आयुक्त उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार स्वाधीनता के बलिदानों के सम्मान में आयोजित स्वाधीनता के "अमृत महोत्सव" के अंतर्गत जिला स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सहभागिता की गई जिला स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता का विषय स्वाधीनता के बलिदानी था इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शासकीय महाविद्यालय महिदपुर के छात्र आयुष परमार BA 3 year रहा । शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा सिमरन सैनी BA 3 year द्वितीय स्थान पर रही। एवं तृतीय स्थान पर लोकमान्य तिलक महाविद्यालय की छात्रा साक्षी तिवारी BBA 1 year रही ।





## एक दीपक हिंदी के नाम


दिनांक 15/10/2022 कार्यक्रम के अंतर्गत लोकमान्य तिलक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर "एक दीपक हिंदी के नाम" कार्यक्रम अयोजित किया गया । कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, समस्त प्राध्यापक गण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे ।



## " चिकित्सा शिक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तकों का विमोचन समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार"

दिनांक 16/10/2022 को भोपाल में आयोजित चिकित्सा शिक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तकों के विमोचन अवसर का महाविद्यालय में सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं चुनिंदा छात्र उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के कारण देशभर में हिंदी के लिए किए गए प्रयासों एवं आंदोलन की जानकारी विद्यार्थियों को तथा शिक्षकों को प्राप्त हुई। आज हिंदी की जो एक मजबूत स्थिति बनी है, उसके पीछे अनेक लोगों के प्रयास समर्पण एवं त्याग परिलक्षित हुआ है। निश्चित रूप से यह आयोजन सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा और मध्य प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि हमारा प्रदेश अब देश में पहला प्रदेश हो गया है जो चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई को हिंदी माध्यम से करायेगा। महाविद्यालय में इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. गोविंद गन्धे, डॉ. अनीता अग्रवाल, डॉ. अक्षिता तिवारी, डॉ. केतकी त्रिवेदी, श्री सुधीर सोलंकी, श्री अमित जैन, डॉ. शीतल कुमार शर्मा, डॉ. नितिशा तोषनीवाल, डॉ. जया परिहार, श्रीमती अनुराधा परमार, श्री योगेश मिश्रा, श्री देवेन्द्र ओसारी श्रीमती मोनिका धनावत, कु. शिवांगी वडनेरे आदि शिक्षक एवं बीसीए, बीबीए, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, पीजीडीसीए, डीसीए के छात्र भी उपस्थित थे। महाविद्यालय की ओर से डॉ. अंजली शाह के नेतृत्व में माइक्रोबायोलॉजी विषय के 10 छात्र शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में सजीव प्रसारण देखने के लिए भी उपस्थित हुए हैं।





402A/B, Vivekanand Colony, Sindhi Colony, Ujjain, Madhya Pradesh 456006, India

Ujjain

Madhya Pradesh

India

2022-10-16(Sun) 12:12(PM)



27°C

81°F



## महाविद्यालय में म.प्र. स्थापना दिवस संपन्न

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार लोकमान्य टिळक विज्ञान एवं वाणिज्य उज्जैन महाविद्यालय उज्जैन में दिनांक 1/11/2022 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को आर्यभट्ट कक्ष में एकत्रित किया गया तथा स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रदान की गई तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत में शासन तथा सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों और उपक्रमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोविंद गन्धे, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अनीता अग्रवाल, डॉ. केतकी त्रिवेदी, डॉ. अक्षिता तिवारी डॉ. नितिशा तोषनीवाल, डॉ. ममता पंड्या, NSS अधिकारी श्रीमती अनुराधा परमार, क्रीड़ा अधिकारी श्री देवेन्द्र ओसारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश गान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।





## जिला स्तरीय मुकाभिनय एवं मिमिक्री प्रतियोगिता

उच्च शिक्षा विभाग एवं विक्रम विश्वविद्यालय के आदेशानुसार लोकमान्य टिळक विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय दिनांक 11/11/2022 में जिला स्तरीय युवा उत्सव के अंतर्गत मुकाभिनय एवं मिमिक्री प्रतियोगिता संपन्न हुई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोविंद गन्धे जी ने निर्णायकों का स्वागत किया।

कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. अनीता अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तरीय मुकाभिनय प्रतियोगिता में जिलों के महाविद्यालयों की 3 टीमों ने सहभागिता की। इसी प्रकार मिमिक्री प्रतियोगिता में 5 महाविद्यालयों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

प्रतियोगिता का निर्णय इस प्रकार रहा -- मिमिक्री में प्रथम स्थान पर शेषशायी महाविद्यालय के सुजल सुल्तानिया, द्वितीय स्थान पर फ्यूचर विजन महाविद्यालय के हर्ष थानी एवं तृतीय स्थान पर गणित अध्ययन शाला के पवन कुमार रावल रहे। मुकाभिनय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, द्वितीय स्थान रसायन अध्ययनशाला और तृतीय स्थान पर शेषशायी महाविद्यालय नागदा रहा।

कार्यक्रम का संचालन सांस्कृतिक समिति सदस्य श्रीमती सोनल गोधा ने किया एवं आभार डॉ. ममता पण्डया ने माना।





GPS Map Camera


### Ujjain, Madhya Pradesh, India

Lokmanya Tilak Shiksha Parisar, behind Railway Station, Sindhi Colony, Ujjain, Madhya Pradesh 456006, India

Lat 23.176838°

Long 75.781389°

11/11/22 05:18 PM GMT +05:30



GPS Map Camera

### Ujjain, Madhya Pradesh, India

Lokmanya Tilak Shiksha Parisar, behind Railway Station, Sindhi Colony, Ujjain, Madhya Pradesh 456006, India

Lat 23.176832°

Long 75.781382°

11/11/22 03:40 PM GMT +05:30



Google